



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 606 ]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 2001/अग्रहायण 14, 1923

No. 606]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2001/AGRAHAYANA 14, 1923

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2001

शुद्धिपत्र

सा.का.नि. 879(अ).--09-07-2001 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड 3(i) के पृष्ठ 2 पर प्रकाशित सा.का.नि. 527(ई) में आंशिक संशोधन करते हुए पैरा 1, उप-पैरा (i) के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाए :

(i) इन नियमों को पासपोर्ट (द्वितीय संशोधन) नियम, 2001 कहा जा सकता है।

[ फा. सं. VIII/405/26/99 ]

जे. सी. शर्मा, सचिव(पी सी डी)

**टिप्पणी :**—मूल नियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 691(ई) दिनांक 11 दिसम्बर, 1980 (1980 विदेश) भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड(i) के तहत प्रकाशित किया गया था और जिसे बाद में निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किया गया :

1. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 50(अ) दिनांक 7-2-1981
2. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 494(अ) दिनांक 10-6-1981
3. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 469(अ) दिनांक 24-6-1982
4. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 325(अ) दिनांक 12-4-1983
5. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 482(अ) दिनांक 13-6-1983
6. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 494(अ) दिनांक 16-6-1983
7. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 345(अ) दिनांक 29-3-1985
8. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 860(अ) दिनांक 1-11-1985
9. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 857(अ) दिनांक 13-10-1987
10. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1155(अ) दिनांक 21-11-1988

11. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 84(अ) दिनांक 11-2-1988
12. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 622(अ) दिनांक 27-6-1990
13. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 653(अ) दिनांक 20-7-1990
14. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 100(अ) दिनांक 4-3-1991
15. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 275(अ) दिनांक 20-3-1991
16. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 586(अ) दिनांक 21-6-1991
17. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 111(अ) दिनांक 22-1-1992
18. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 684(अ) दिनांक 15-6-1992
19. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 721(अ) दिनांक 7-8-1992
20. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 477(अ) दिनांक 24-6-1993
21. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 477(अ) दिनांक 24-6-1993
22. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 485(अ) दिनांक 1-7-1993
23. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 503(अ) दिनांक 10-7-1993
24. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 833(अ) दिनांक 2-12-1994
25. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 592(अ) दिनांक 7-8-1995
26. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 491(अ) दिनांक 28-8-1997
27. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 605(अ) दिनांक 5-10-1998
28. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 516(अ) दिनांक 8-7-1999
29. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 827(अ) दिनांक 29-12-1999
30. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 34(अ) दिनांक 12-1-2000
31. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 473(अ) दिनांक 22-5-2000
32. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 485(अ) दिनांक 23-5-2000
33. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 529(अ) दिनांक 8-6-2000
34. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 584(अ) दिनांक 4-7-2000
35. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 632(अ) दिनांक 25-7-2000
36. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 482(अ) दिनांक 26-6-2001
37. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 527(अ) दिनांक 9-7-2001
38. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 576(अ) दिनांक 27-7-2001

**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**

New Delhi, the, 4th December 2001.

**CORRIGENDUM**

**G.S.R. 879(E)**— In partial modification of GSR 527 (E) published on page 2 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 (i) on 09-07-2001, para 1, sub-para (i) may be substituted by the following :

1. (1) These rules may be called the Passport (Second Amendment) Rules, 2001.

[F.No. VIII/403/26/99]

J.C. SHARMA, Secy. PCD

**Note :** Principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. GSR 691(E) dated December 11, 1980 (1980 External) Part II Section 3, Sub-section (i), subsequently amended by :—

1. Notification No. GSR 50(E) dated 7-2-1981
2. Notification No. GSR 494(E) dated 10-6-1981
3. Notification No. GSR 469(E) dated 24-6-1982
4. Notification No. GSR 325(E) dated 12-4-1983
5. Notification No. GSR 482(E) dated 13-6-1983
6. Notification No. GSR 494(E) dated 16-6-1983
7. Notification No. GSR 345(E) dated 29-3-1985
8. Notification No. GSR 860(E) dated 1-11-1985
9. Notification No. GSR 857(E) dated 13-10-1987
10. Notification No. GSR 1155(E) dated 21-11-1988
11. Notification No. GSR 84(E) dated 11-2-1988

12. Notification No. GSR 622(E) dated 27-6-1990
13. Notification No. GSR 653(E) dated 20-7-1990
14. Notification No. GSR 100(E) dated 4-3-1991
15. Notification No. GSR 275(E) dated 20-3-1991
16. Notification No. GSR 586(E) dated 21-6-1991
17. Notification No. GSR 111(E) dated 22-1-1992
18. Notification No. GSR 684(E) dated 15-6-1992
19. Notification No. GSR 721(E) dated 7-8-1992
20. Notification No. GSR 477(E) dated 24-6-1993
21. Notification No. GSR 477(E) dated 24-6-1993
22. Notification No. GSR 485(E) dated 1-7-1993
23. Notification No. GSR 503(E) dated 10-7-1993
24. Notification No. GSR 833(E) dated 2-12-1994
25. Notification No. GSR 592(E) dated 7-8-1995
26. Notification No. GSR 491(E) dated 28-8-1997
27. Notification No. GSR 605(E) dated 5-10-1998
28. Notification No. GSR 516(E) dated 8-7-1999
29. Notification No. GSR 827(E) dated 29-12-1999
30. Notification No. GSR 34(E) dated 12-1-2000
31. Notification No. GSR 473(E) dated 22-5-2000
32. Notification No. GSR 485(E) dated 23-5-2000
33. Notification No. GSR 529(E) dated 8-6-2000
34. Notification No. GSR 584(E) dated 4-7-2000
35. Notification No. GSR 632(E) dated 25-7-2000
36. Notification No. GSR 482(E) dated 26-6-2001
37. Notification No. GSR 527(E) dated 9-7-2001
38. Notification No. GSR 576(E) dated 27-7-2001